

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ५२७]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर १०, १९६७/कार्तिक १९, १८८९

No. 527]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 1967/KARTIKA 19, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 10th November 1967

S.O. 4053.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in partial modification of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 1540 dated 7th October, 1967, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts gin, whisky and rum of Nepalese origin when imported from Nepal into India, from so much of the additional duty leviable thereon under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as is in excess of Rs. 13/- per bulk litre.

[No. 112/80/87/67-L.C.I.]

T. C. SETH, Jt. Secy.

(1737)

